

11 लाख में सिद्ध नागमणि खरीदने के लिए छाप रहे थे नकली नोट, 2 लाख से ज्यादा बाजार में चला चुके

Indore News - दिल्ली के एक कारोबारी से 11 लाख रुपए में सिद्ध नागमणि खरीदने के लिए तीन लोग छह महीने से पुलिस कंट्रोल रूम से करीब 400...

Jun 30, 2019, 07:35 AM IST

Hindi News | Mp | Indore | News

Indore News mp news imprint note was printed for buying sukha nagmani in 11 lakhs more than 2 lakhs ran in the market

दिल्ली के एक कारोबारी से 11 लाख रुपए में सिद्ध नागमणि खरीदने के लिए तीन लोग छह महीने से पुलिस कंट्रोल रूम से करीब 400 मीटर दूर एक बिल्डिंग में नकली नोट छाप रहे थे। ये लोग करीब दो लाख के नकली नोट इंदौर, उज्जैन, देवास, इटावा, सतना, मैहर, मंडीदीप, झाबुआ, मक्सी के अलावा कई हाइवे के पेट्रोल पंपों पर चला चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शुक्रवार को छापा मारकर इनसे एक लाख 83 हजार के नकली नोट, कलर प्रिंटर और पेपर जब्त किए हैं। आरोपी दो हजार, पांच सौ और 100 रुपए के कई नोट छाप चुके थे।

एसटीएफ एवं साइबर सेल के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि आरएनटी मार्ग स्थित श्याम टावर में फाइनेंस कंपनी के एक ऑफिस में यह जालसाजी चल रही थी। एसटीएफ एसपी गीतेश गर्ग की टीम ने देवास निवासी आरोपी रुद्र चौहान, भोला उर्फ देवेन्द्र चौहान और इटावा निवासी दिलीप चौहान को गिरफ्तार किया है। छापे के दौरान आरोपियों ने नकली नोट जलाने की भी कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें बुझा दिया। एसआई दीक्षित को सूचना मिली थी कि दिल्ली के कारोबारी से तंत्र क्रियाओं में काम आने वाली सिद्ध नागमणि लेने के लिए कुछ लोग नकली नोट छाप रहे हैं। जैसे ही रात 10.30 बजे टीम ने दबिश दी तो तीनों आरोपी ऑफिस में ही मिल गए। गिरोह का सरगना रुद्र चौहान है। वह 12वीं तक पढ़ा है। वह फाइनेंस का काम करता था, वहीं भोला ऑफिस का काम संभालता है। दिलीप खुद को तांत्रिक बताता है। यह कई तरह की तंत्र क्रियाएं करने की आड़ में भी लोगों से धोखेबाजी कर चुका है।

सरगना के पास से 3 अलग-अलग नंबर के पैन कार्ड मिले



भोला उर्फ देवेन्द्र चौहान

दैनिक भास्कर प्लस एप से फोटो स्कैन करें और वीडियो देखें

एसटीएफ की गिरफ्त में नकली नोट छापने वाले तीनों आरोपी।

सरगना के पास से 3 अलग-अलग नंबर के पैन कार्ड मिले



रुद्र इस गिरोह का सरगना है। उसके पर्स से तीन अलग-अलग नंबर के पैन कार्ड मिले हैं। सभी में उसका फोटो तो था, लेकिन नाम और जन्म तारीख अलग थी। उसने बताया कि उसका साथी दिलीप चौहान ने तांत्रिक क्रिया में काम आने वाली सिद्ध नागमणि खरीदने के लिए 11 लाख रुपए इकट्ठा करने की बात कही थी। कमाई से इतने रुपए इकट्ठा करना मुश्किल था तो हमने नकली नोट छापने की ठानी।



रुद्र चौहान



दिलीप चौहान

हूबहू मणि तैयार कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने की फिराक में थे

सरगना रुद्र ने बताया कि दिलीप ने दिल्ली के किसी कारोबारी से ओरिजनल सिद्ध नागमणि खरीदने के लिए 11 लाख रुपए में बात की थी। एसटीएफ दिल्ली भी जाएगी। यह भी पता चला है कि ये जो नागमणि लेने वाले थे, उससे तंत्र क्रिया कर किसी बड़ी सिद्धि का काम कर काफी रुपए बनाने की फिराक में थे। इस नागमणि को लेने के बाद ये उसकी हूबहू फर्जी मणि तैयार कर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेचने की प्लानिंग कर चुके थे।

Source: <https://www.bhaskar.com/mp/indore/news/mp-news-imprint-note-was-printed-for-buying-sukha-nagmani-in-11-lakhs-more-than-2-lakhs-ran-in-the-market-073504-4887951.html>